



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]

No. 113]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 28, 2008/माघ 8, 1929

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 28, 2008/MAGHA 8, 1929

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2008

का.आ. 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, शिक्षु (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 36) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1-2-2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. डीजीईटी-23(9)(2909)/2002-एपी]

शारदा प्रसाद, महानिदेशक/संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF EMPLOYMENT AND
TRAINING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2008

S.O. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Apprentices (Amendment) Act, 2007 (36 of 2007), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2008 as the date on which the said Act shall come into force.

[F.No.DGET-23(9)(2909)/2002-AP]

SHARDA PRASAD, Director General/Jt. Secy.